



FIROZABAD POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



एसओजी/सर्विलांस व थाना नसीरपुर पुलिस टीम ने सयुक्त कार्यवाही करते हुए अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गैंग के 06 सदस्यों को चार पहिया गाडी में तस्करी हेतु ले जाए जा रहे 50 किलोग्राम गांजा सहित किया गिरफ्तार ।

विगत समय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को जनपद फिरोजाबाद एवं आस-पास के जनपदों में उड़ीसा राज्य से तस्करी कर नाजायज गांजा की बड़ी खेप की सप्लाई किये जाने की सूचनायें प्राप्त हुई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुये उनके द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम को गांजा तस्करी करने वाले गैंगों पर कार्यवाही कर गांजा बरामदगी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद की एसओजी/सर्विलांस पुलिस टीम गांजा तस्करी करने वाले अपराधियों पर लगातार निगरानी बनाये हुये थी तभी दिनांक 30-09-21 को उक्त टीमों को सूचना प्राप्त हुई कि गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के कुछ सदस्य आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाइवे के जरिये कार से उड़ीसा राज्य से गांजा की तस्करी कर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं । इस सूचना पर नसीरपुर थाना पुलिस टीम को सूचना से अवगत कराते हुए पुलिस टीमों द्वारा नसीरपुर कट फतेहपुर कर्खा रोड पर बन्द पडे भट्टे की घेराबन्दी करते हुए 06 अभियुक्तों को चार पहिया गाडी में अवैध तस्करी हेतु ले जाये जा रहे 50 किलो ग्राम गाँजा सहित गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना नसीरपुर पर मु0अ0सं0 205/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों से अवैध गांजा लाने व बिक्री करने के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोगों का एक सुसंगठित गैंग है जिसमें सभी के कार्य अलग अलग हैं । अपने आर्थिक लाभ के लिए हम लोग उड़ीसा से सस्ते दामों पर गांजे की खरीद करते हैं एवं अधिक मुनाफा कमाने हेतु विभिन्न जनपदों में दूगने-तिगने दामों पर गांजा सप्लाई करते हैं । इसके पूर्व में हम लोग 06 बार ऐसा कर चुके हैं परन्तु आज पहली बार पकडे गए हैं ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-संजय कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी नगला भंज्जा थाना किशनी जनपद मैनपुरी, वर्तमान पता माधव कुंज कॉलोनी महोली रोड मथुरा ।
- 2-अंकित पुत्र प्रेम सिंह निवासी जरामई थाना दन्नाहार मैनपुरी ।
- 3-सुशील कुमार पुत्र करन सिंह निवासी बाहठोन थाना लोधा जनपद अलीगढ़ ।
- 4-प्रदीप पुत्र प्रेम सिंह निवासी सादूपुरा थाना निधौली कलां जनपद एटा ।
- 5-जितेन्द्र पुत्र रामप्रकाश निवासी कैथावा थाना बैला जनपद औरैया ।
- 6-शिवम कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी कैथावा थाना बैला जनपद औरैया ।

बरामदगी:-

1. गांजा -- 50 किलो (कीमत करीब 3 लाख रुपये)

2. चार पहिया गाडी (सेवरोलेट एवियो) यूपी 08 जे 8510

अभियुक्तगण (संजय कुमार, अंकित, सुशील कुमार, प्रदीप, जितेन्द्र एवं शिवम का

आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 205/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

एसओजी व सर्विलांस टीम:-

1-श्री के0के तिवारी प्रभारी एसओजी फिरोजाबाद ।

2-उ0नि0 श्री अजय सिंह एसओजी फिरोजाबाद ।

3-उ0नि0 श्री अरुण त्यागी प्रभारी सर्विलांस सेल फिरोजाबाद ।

4-है0का0 रामअवतार सिंह, 5-का0 विजय, 6-का0 प्रेम कुमार

7-का0 योगेश, 8-का0 1323 मानवेन्द्र सिंह, 9-का0 दिलीप कुमार ।

10-का0 रघुराज सिंह, 11-का0 प्रवीण कुमार ।

थाना नसीरपुर पुलिस टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक चन्द्र प्रताप सिंह थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।

2-उ0नि0 हाकिम सिंह थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।

3-है0का0 राजेन्द्र कुमार थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।

4-का0 सत्यदेव, 5-का0 आकाश, 6-का0 अमन अवस्थी थाना नसीरपुर फिरोजाबाद ।